

AKSH OPTIFIBRE LIMITED

A-32, 2nd Floor,
Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura
Road, New Delhi-110044, INDIA
Tel.: +91-11-49991700, 49991777
Fax: +91-11-49991800
Email : aksh@akshoptifibre.com
Website : www.akshoptifibre.com
CIN NO.: L24305RJ1986PLC016132

August 09, 2025

To,

Sr. General Manager National Stock Exchange of India Ltd Exchange Plaza, 5 th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai- 400 051. NSE SYMBOL: AKSHOPTFBR	Sr. General Manager BSE Ltd Phirozee Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400 001 BSE SCRIP CODE: 532351
--	---

Dear Sir/Ma'am,

Sub: Copy of Newspaper Publication of Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the quarter ended June 30, 2025.

With reference to the captioned subject and in accordance with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulation, 2015, please find enclosed copies of Newspaper Publication containing a Quick Response Code and the details of webpage where the complete Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the quarter ended June 30, 2025 of the Company, published on August 09, 2025, in "The Financial Express" and "Lokmat".

You are requested to take the same on your records.

Thanking You,

For & on behalf of
Aksh Optifibre Limited

Mayank Chadha
Company Secretary & Compliance Officer
M. No.: F13404

Encl.: a/a

We smarten up your life..®

Regd. Office: F-1080, RIICO Industrial Area Phase-III, Bhiwadi – 301019 (Rajasthan) INDIA
Phones: +91-1493-220763, 221333 | Fax: +91-1493-221329

(... Continued from previous page)

The Board of Directors of the Company on August 07, 2025, has taken on record the Basis of Allotment of Equity Shares as approved by BSE Limited and has allotted the Equity Shares to various successful bidders. The Allotment Advices-cum-Intimations and/or notices have been forwarded to the email ids registered with the depositories/as filled in the application form. Further, the instructions to Self-Certified Syndicate Banks for unblocking the funds & transfer to Public Issue Account have been issued on or before August 08, 2025 and payment to non-syndicate brokers has been issued on or before August 08, 2025. In case the same is not received within two working days, investors may contact at the address given below. The equity shares allotted to the successful allottees have been uploaded on August 08, 2025 for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company has filed the Listing application with BSE Limited on August 08, 2025. The Company has received the listing and trading approval from BSE Limited and trading will commence on August 11, 2025.

INVESTORS PLEASE NOTE

The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the issue, Skyline Financial Services Private Limited at www.skylinerta.com. All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole applicants, serial number of the Bid cum Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:
SKYLINE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
SEBI Registration Number: INR000003241
Address: D-153A, 1st floor, Phase I, Okhla Industrial Area, Delhi- 110020, India.
Telephone: + 91-11-26812682/83, + 91 99995 89085
Email: admin@skylinerta.com
Website: www.skylinerta.com
Investor Grievance Email: grievances@skylinerta.com
Contact Person: Anuj Rana
CIN: U74899DL1995PTC071324

On behalf of Board of Directors
For, BLT Logistics Limited
sd/-
Krishan Kumar
Chairman and Managing Director

Place: New Delhi
Date: August 08, 2025

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF BLT LOGISTICS LIMITED.

BLT Logistics Limited is proposing, subject to market conditions, public issue of its equity shares and had filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Delhi. The Prospectus is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Book Running Lead Manager at www.beelinemb.com, website of the BSE at www.bseindia.com and website of Issuer Company at www.bllogistics.com; Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details, investors shall refer to and rely on the Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 28 of the Prospectus, which has been filed with ROC. The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act (the "Securities Act") or any state securities law in United States and may not be issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in the Regulation S under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act of 1933.



S CHAND AND COMPANY LIMITED
Registered Office: A-27, 2nd Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi-110044, India
Email: investors@schandgroup.com; Website: www.schandgroup.com; Phone: +91 11 49731800
Fax: +91 11 49731801; CIN: L22219DL1970PLC005400


Extracts of the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results
for the quarter ended 30th June, 2025

S. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Quarterly		Year Ended	Quarterly		Year ended
		June 30, 2025	June 30, 2024	March 31, 2025	June 30, 2025	June 30, 2024	March 31, 2025
		Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from operations	457.36	550.74	3,099.16	1,067.65	1,136.19	7,326.97
2	Profit/(loss) before exceptional items and tax	(44.46)	47.81	312.53	(182.17)	(16.34)	928.36
3	Profit/(loss) before tax	(44.46)	47.81	223.63	(182.17)	(16.34)	928.36
4	Profit/(loss) for the period/year (after tax)	(27.78)	30.79	157.37	(140.66)	(29.94)	602.32
5	Total comprehensive income for the period /year (comprising profit/(loss) and other comprehensive income for the period/year)	(27.67)	31.38	153.36	(134.39)	(25.36)	595.12
6	Equity Share capital	176.25	176.09	176.25	176.25	176.09	176.25
7	Reserves and surplus (excluding Revaluation Reserves) of the previous year	NA	NA	8,416.09	NA	NA	9,726.54
8	Earnings/(loss) per share (in ₹)						
	- Basic	(0.79)	0.87	4.47	(3.77)	(0.58)	18.04
	- Diluted	(0.79)	0.87	4.46	(3.77)	(0.58)	18.03

Notes:
1. The above is an extract of detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of The SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Company's website www.schandgroup.com and on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and The National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).
2. The unaudited standalone and consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2025 were reviewed by the Audit Committee at its meeting held on August 08, 2025 and have been approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on August 08, 2025.

For and on behalf of the Board of Directors
S Chand And Company Limited
sd/-
Himanshu Gupta
Managing Director
DIN: 00054015

Date: August 08, 2025
Place: New Delhi



Xchanging Solutions Limited
Registered Office : HP Avenue 39/40, Electronic City, Hosur Main Road
Bengaluru- 560 100, Karnataka, India
CIN: L72200KA2002PLC030072
Tel.: +91 80 6972 9602
Email: xchangingcompliance@dxcc.com Website: www.dxc.com

Extract of unaudited consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2025 (Rs. in lakhs except for per share data)

Particulars	Quarter ended 30/06/2025	Quarter ended 31/03/2025	Corresponding Quarter ended 30/06/2024	Year ended 31/03/2025
	(Unaudited)	(Refer note 1)	(Unaudited)	(Audited)
Total income from operations	5,378	5,443	4,963	20,191
Net Profit for the period before tax	1,883	1,952	1,448	6,341
Net Profit for the period after tax	1,377	1,465	1,063	4,958
Total Comprehensive Income for the period after tax	1,495	1,529	1,051	4,929
Paid up equity share capital (Face value per share Rs 10/-, fully paid)	11,140	11,140	11,140	11,140
Other Equity (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	24,727
Earnings per Equity Share (Face value of Rs.10/- each) (not annualised for the quarters)				
Basic and diluted- In Rs	1.24	1.32	0.95	4.45

Key numbers of Standalone Financial Results (Rs. in lakhs)

Particulars	Quarter ended 30/06/2025	Quarter ended 31/03/2025	Corresponding Quarter ended 30/06/2024	Year ended 31/03/2025
	(Unaudited)	(Refer note 1)	(Unaudited)	(Audited)
Total income from operations	1,416	1,510	1,491	5,498
Net Profit for the period before tax	655	691	704	2,359
Net Profit for the period after tax	471	498	508	1,959
Total Comprehensive Income for the period after tax	463	531	502	1,999

Notes:
1. The figures for the quarter ended March 31, 2025 are the balancing figures between audited figures of the full financial year ended March 31, 2025 and the published year to date figures upto the third quarter ended December 31, 2024, wherein limited review was performed by the statutory auditors of the Company. The statutory auditors have performed a limited review on the results for the quarter ended March 31, 2025.
2. The Board of Directors of the Company had considered and recommended final dividend of INR 2 per equity share (face value of INR 10 each) amounting to INR 2,228 for the financial year ended March 31, 2025 at their meeting held on May 21, 2025. The recommended final dividend on equity shares is subject to approval of shareholders at the ensuing annual general meeting.
3. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.dxc.com/in/en/about-us/xchanging-solutions-limited-investor-relations. The same can be accessed by scanning the QR code provided above.

By Order of the Board of Directors
Swaminathan Swaminathan
Managing Director and Chief Executive Officer
DIN: 10976726


Place: Chennai
Date : August 08, 2025



IMP POWERS LIMITED
CIN: L31300DN1961PLC000232
Regd. Office: CH 7, Inspire Business Park, Shantigram Near Vaishnodevi Circle, Ahmedabad, Gujarat, India, 382421. Tel. No.: +91-79-2655 4100
Website: www.imp-powers.com | Email ID: info@imp-powers.com

Un-Audited Financial results for the Quarter ended June 30, 2025

In Compliance with Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the Board of Directors IMP Powers Limited ("Company") at their meeting held on **Friday, 8th August, 2025** approved the Un-Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the Quarter ended **30th June 2025** ("Results").
The results alongwith the Limited Review Report (Standalone & Consolidated) by Statutory Auditor of the Company are available at <http://www.imp-powers.com/investors.php> and on website of the Stock Exchanges. i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.
In compliance with Regulation 47 of the Listing Regulations, we hereby notify that the same can also be accessed by scanning the following Quick Response (QR) code:



For IMP Powers Limited
Sd/-
Rakesh Shah
Chairman
DIN: 00421920

Date: 08/08/2025
Place: Ahmedabad



AKSH OPTIFIBRE LIMITED
CIN: L24305RJ1986PLC016132
R/O: F-1080, Phase III RIICO Industrial Area, Bhiwadi, Rajasthan, India, 301019
Ph: +91-11-49991700, 49991777, Website: www.akshoptifibre.com


STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE & CONSOLIDATED)
FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

Pursuant to Regulation 33 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Board of Directors of Aksh Optifibre limited ("the Company") at its meeting held on Friday, August 08, 2025, approved the Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the quarter ended June 30, 2025.
The full Financial Results along with Limited Review Report, are available on the website of the Company at <https://akshoptifibre.com/financial-results.php> and the website of stock exchanges i.e. the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively and can be accessed by scanning the below QR Code:



For Aksh Optifibre Limited
Sd/-
Dr. Kailash S. Choudhari
Chairman
DIN: 00023824

Date: August 08, 2025
Place: New Delhi



The Sandur Manganese & Iron Ores Limited
Registered Office: 'SATYALAYA', Door No. 266 (Old No.80), Behind Taluka Office, Palace Road, Ward No.1, Sandur - 583 119, Ballari District, Karnataka;
CIN: L85110KA1954PLC000759; Website: www.sandurgroup.com; Email ID: investors@sandurgroup.com; Telephone: +91 8395 260301; Fax: +91 8395 260473

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS
FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2025

The Board of Directors of the Company, at its meeting held on 8 August 2025, approved the unaudited standalone and consolidated financial results of the Company for the quarter ended 30 June 2025.


The financial results, along with the Limited Review Report issued by M/s. Deloitte Haskins & Sells (FRN: 008072S), the Statutory Auditor of the Company, have been made available on the website of the Company at <https://www.sandurgroup.com/quarterly-results> and can be accessed by scanning the Quick Response (QR) code.

The same can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed - BSE Limited at <https://www.bseindia.com/> and National Stock Exchange of India Limited at <https://www.nseindia.com/>.

for The Sandur Manganese & Iron Ores Limited
Sd/-
Bahirji Ajai Ghorpade
Managing Director

Place: Bengaluru
Date: 8 August 2025

Note: The above intimation is in accordance with Regulations 47(1) and 52(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.




Ramky Infrastructure Limited
CIN: L74210TG1994PLC017356
Regd. Office: 15th Floor, Ramky Grandiose, Sy. 136/2 & 4, Gachibowli, Hyderabad - 500032
Ph: 040 - 23015000; website: www.ramkyinfrastructure.com; E-mail: secr@ramky.com

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2025

(₹ in Million, except share data)

Sl. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Quarter Ended		Year Ended	Quarter Ended		Year Ended
		June 30, 2025	Mar 31, 2025	June 30, 2024	June 30, 2025	Mar 31, 2025	June 30, 2024
		Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited
1	Total Income from Operations	3,951.01	5,264.90	5,762.71	20,938.43	4,403.70	5,436.56
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional Items)	746.13	123.38	1,200.33	3,621.71	1,008.22	83.26
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)	746.13	123.38	1,200.33	3,621.71	1,008.22	83.26
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional Items)	555.83	95.83	864.18	2,651.87	770.35	(33.01)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	566.50	88.08	871.18	2,641.47	781.03	(39.56)
6	Equity Share Capital	691.98	691.98	691.98	691.98	691.98	691.98
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet	-	-	-	14,540.92	-	-
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)						
	1. Basic: (Rs.)	8.03	1.38	12.49	38.32	10.75	(0.67)
	2. Diluted: (Rs.)	8.03	1.38	12.49	38.32	10.75	(0.67)

Notes:
1. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meetings held on 08th August 2025.
2. The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated results for the Quarter ended 30th June 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended Results are available on the Stock Exchange website namely, BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com), and on the Company's website: www.ramkyinfrastructure.com. The same can also be accessed by scanning the Quick Response Code (QRC) provided below.



For Ramky Infrastructure Limited
Sd/-
Y R Nagaraja
Managing Director
DIN: 00009810

Date: 08.08.2025
Place: Hyderabad

रक्षाबंधन पर्व पर RRR आधारित वेस्ट मैटेरियल से स्वच्छता योद्धाओं ने बनाई राखी

महापौर ने स्वच्छता योद्धाओं को राखी बांध कर स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में टॉप 3 रैंक लाने का लिया वचन

■ महापौर ने दी जयपुरवासियों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं

■ लोकमत, जयपुर

नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय पर शुरुवार को रक्षाबंधन का पर्व स्वच्छताबंधन के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर महापौर डॉ. सीम्या गुर्जर ने स्वच्छता योद्धाओं को राखी बांध कर शहर को स्वच्छ रखने, तथा स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में टॉप 3 रैंक लाने का वचन लिया। डॉ सीम्या के निर्देशन में स्वच्छता योद्धाओं ने त्त पर आधारित वेस्ट मैटेरियल से पर्यावरण अनुकूल राखियों का निर्माण किया।

इन राखियों को माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को प्रेषित करते हुए पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। महापौर ने प्रधानमंत्री जी को रक्षाबंधन पर्व पर शुभकामना संदेश भेजा। शुभकामना संदेश के जरिये कहा की RRR अभियान से प्रेरित होकर इस वर्ष नगर निगम ग्रेटर द्वारा पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास को ध्यान में रखते हुए विशेष त्त पर आधारित राखी तैयार की गई है। इस राखी के माध्यम से न केवल रक्षाबंधन का संदेश बल्कि आपके द्वारा दिये गये सतत विकास एवं आत्मनिर्भर भारत के मार्गदर्शन को भी आमजन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने

कहा की वेस्ट से वेस्ट की पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कदम है बल्कि स्वच्छता कर्मियों की सृजनशीलता और मेहनत का सम्मान भी है। कार्यक्रम में महापौर ने वृक्ष को भी राखी बांधी और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। महापौर ने रक्षाबंधन पर्व पर सभी को शुभकामना देते हुए पार्षदों, चैयरमैन, निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों को राखी बांधी। महापौर डॉ सीम्या गुर्जर ने कहा कि इस तरह की पहल समाज को स्वच्छता और पर्यावरण हितैशी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है और यह संदेश देती हैं कि वेस्ट मैटेरियल से वेस्ट मैटेरियल बनाया जा सकता है।

100 से अधिक महिला स्वच्छता योद्धाओं ने दिखाया हुनर, वेस्ट मैटेरियल से बनाई राखियां : नगर निगम ग्रेटर के RRR सेन्टर पर 100 से अधिक महिला स्वच्छता योद्धाओं ने सफाई कार्य होने के बाद कुछ समय निकालकर टिप्पल आर सेंटर पर (Reduce, Reuse, Recycle)वेस्ट मैटेरियल से राखियां बनाई। ये राखियां प्लास्टिक के ढकनों, पुराने कपड़ों, धागो, ऊन, बचे हुए सजावटी सामान डिब्बोंयों जैसे वेस्ट मैटेरियल से तैयार की जा रही है। महापौर डॉ सीम्या गुर्जर की पहल पर यह नवाचार किया गया। जिसमें लगभग 5000 राखियां बनाई गई। यह राखियां वृक्षो को बांधने के साथ-साथ माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को भी भेजी गई है।



तिरंगा यात्रा को लेकर बांसा मंडल की बैठक का हुआ आयोजन

■ लोकमत, जयपुर

श्री गणेश मन्दिर सामोद में पूर्व विधायक रामलाल शर्मा के निर्देशानुसार तिरंगा यात्रा तैयारी मीटिंग बांसा मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन बांसा मंडल अध्यक्ष शंकर लाल गागोरिया के नेतृत्व में सम्पन्न हुई। भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर प्रदेश में 10 अगस्त से 14 अगस्त तक निकाली जाने वाली तिरंगा यात्रा के तहत दिनांक 11 अगस्त 2025 को शाम 5 बजे तिरंगा यात्रा का आयोजन सामोद में श्री गणेश मन्दिर से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए पंचायत भवन के सामने तक किया जाएगा। बांसा मंडल में तिरंगा यात्रा के सफल आयोजन के लिए संयोजक पूर्व मंडल अध्यक्ष श्रीराम शर्मा, सह संयोजक विमल शर्मा और रामकिशोर मीणा को नियुक्त किया गया है। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष श्रीराम शर्मा, पूर्व फल सब्जी मंडी अध्यक्ष दिनेश गोरा, सरपंच बाबूलाल गुर्जर, मांगीलाल शर्मा, कालुराम बड़बड़वाल, जमनालाल सैनी, महेश योगी, राहुल शर्मा, प्रकाश हाटवाल, विमल शर्मा और रामकिशोर मीणा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सर्वार्थ सिद्धि, सौभाग्य, गजलक्ष्मी, बुधादित्य योग में रक्षाबंधन आज

■ लोकमत, जयपुर

भाई बहन के प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के अटूट बंधन का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व आज श्रद्धा हर्ष उल्लास से मनाया जाएगा। ज्योतिषाचार्य डॉ.योगेश शर्मा के अनुसार आज रक्षाबंधन का पर्व 100 साल बाद भद्रा रहित रहेगा। आज भद्रा भूलोक पर नहीं रहेगी। अतः आज पूरे दिन भर बहने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकेगी। आज गजलक्ष्मी, बुधादित्य योग में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। इसके साथ ही श्रवण नक्षत्र रहेगा इसके स्वामी विष्णु भगवान है तो वही सौभाग्य योग के स्वामी ब्रह्मा है अतः इस बार यह त्योहार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साक्षी में संपूर्ण होगा। आज मकर राशि का चंद्रमा, सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग भी रहेगा। पूर्णिमा तिथि आज दोपहर 1.25 मिनट तक होने से रक्षाबंधन का त्योहार पूरे दिन मनाया जाएगा। आज पूरे दिन भद्रा नहीं होने से पूरे दिन सुण जिमाकर कभी भी राखी बांधी जा सकेगी।सुण जिमाने के लिए पूरा दिन शुभ रहेगा। आज राखी बांधने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा दोपहर बाद 1.51 से 4.28 बजे तक तथा प्रदोष काल के समय 7.05 से रात 9.16 बजे तक।

हर घर तिरंगा अभियान के तहत ज़िलेभर में रंग-बिरंगे कार्यक्रमों के साथ गूँजा देशभक्ति का स्वर

■ लोकमत, पिछोड़ागढ़

आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत जिले के विभिन्न नगर निकायों, ग्राम पंचायतों एवं शैक्षणिक संस्थानों में 07 अगस्त 2025 को देशभक्ति से ओत-प्रोत कार्यक्रमों का भव्य आयोजन हुआ। इन आयोजनों ने न केवल राष्ट्रप्रेम की भावना को प्रबल किया, बल्कि समाज में एकता, सौहार्द और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का संदेश भी दिया।

झुग्गी झोपड़ी की बच्ची का जन्मदिन और रक्षाबंधन उत्सव मनाया

■ लोकमत, जेधपुर

बाल शिक्षा विकास ट्रस्ट द्वारा आज चित्रांश विहार कॉलोनी, सेक्टर-10, कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड में एक अनोखा और भावनात्मक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली मासूम सोनू का चौथा जन्मदिन रक्षाबंधन उत्सव के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुरुआत पार्षद पी एन माथुर बाबा 'अतिथि स्वागत' से हुई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों द्वारा सांस्कृतिक एवं डांस प्रस्तुतियों ने माहौल



को आनंदमय बना दिया। ट्रस्ट की संस्थापक 'महक यादव' ने इस अवसर

पर बताया कि सोनू ने एक दिन अपने मोहल्ले में बच्चों को 'हैंप्पी बर्थडे' मनाते देखा और मासूमियत से पूछ - 'सर, ये हैंप्पी बर्थडे कहाँ से मिलता है?' इस भावपूर्ण सवाल ने सभी को बावुक कर दिया, जिसके बाद तय किया गया कि रक्षाबंधन के पावन दिन पर सोनू का जन्मदिन मनाकर उसे भी वही खुशी दी जाए, जो आम बच्चों को मिलती है।

कार्यक्रम में सोनू के लिए केक काटा गया, गीत गाए गए और सभी बच्चों को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। इस विशेष अवसर पर

समाजसेवी एवं भामाशाह बसंती जी, पार्षद पी.एन. माथुर (माथुर बाबा) किशोर जी राजेंद्र सोनी, प्रकाश परिहार, मुकेश बॉक्सर, रवि जी आत्मा नांदी फोजी अनशी यादव, स्वयंसेवी अनिल सेन, अशोक सेन, नरेश कुमार सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम का संचालन डायरेक्टर डॉ. श्याम सैनी ने किया।

बाल शिक्षा विकास ट्रस्ट का यह प्रयास न केवल एक मासूम के चेहरे पर मुस्कान लाया, बल्कि समाज में भाईचारे, अपनत्व और प्रेम का संदेश भी दे गया।

राजस्थान राज्य महिला नीति के तहत जागरूकता रैली एवं प्रसार वार्ता का हुआ आयोजन

■ लोकमत, कालांडेरा

ग्रामीण शिक्षा को समर्पित स्थानीय सेठ आरएल सहरिया राजकीय पीजी महाविद्यालय कालांडेरा के राजस्थान राज्य महिला नीति प्रकोष्ठ के तत्वावधान में पीसीपीएनडीटी एक्ट-1994 के प्रति जागरूकता विकसित करने के लिहाज से महाविद्यालय परिसर में रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. जय भागत सिंह ने विद्यार्थियों को बताया कि इस कानून का मुख्य मकसद लिंग चयन और लिंग निर्धारण को रोकना है, ताकि कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथा पर लगाम लगाई जा सके। जागरूकता रैली के समापन के उपरान्त राजस्थान राज्य महिला नीति की महाविद्यालयी संयोजक डॉ. दीपा वर्मा ने पोषण के महत्व पर एक प्रसार वार्ता प्रदान की, जिसमें उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि शरीर को सही मात्रा और संतुलन में वे सभी पोषक तत्व देना बेहद जरूरी है।

बैरवा समाज ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, ज्ञापन सौपा केशोरपाटन के विधायक सीएल प्रेमी के समर्थन में बैरवा समाज में आक्रोश

■ लोकमत, बांस

केशोरपाटन के विधायक सीएल प्रेमी बैरवा की जाति को लेकर पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल द्वारा लगाए गए आरोपों के विरोध में बैरवा समाज ने बांस में प्रदर्शन किया। जिला बैरवा महासभा समिति ने शहर के कोटा रोड पर रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में बैरवा समाज के महिला-पुरुष शामिल हुए। सभी नारेबाजी करते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे। जहां उन्होंने विधायक प्रेमी के खिलाफ जाति सम्बन्धी गलत टिप्पणी करने वालो के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की मांग की। जिला बैरवा महासभा के जिलाध्यक्ष जगदीश बैरवा और कांग्रेस की महिला जिलाध्यक्ष बृजेश बैरवा ने बताया कि राजनीति में आने से पहले विधायक सी. एल. प्रेमी बैरवा 30 साल तक सरकारी नौकरी में रहे। उन्होंने इसी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी की। जो उपखंड अधिकारी द्वारा जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीति द्वेष से विधायक की जाति पर अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं।

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बीकानेर

स्वास्थ्य भवन, त्यागी बाटिका, जेल रोड, बीकानेर

फ़ोन - 0151-2201142

email-eemhbikaner@gmail.com

क्रमांक :- EE/MS&H/BKN/2025-26/1427

दिनांक :- 30/07/2025

ई-टेंडरिंग निविदा सूचना संख्या :- 31/2025-26

निम्नलिखितरूपतः द्वारा राजस्थान के राज्यपाल महोदय जी और से जिला बीकानेर एवं श्रीगंगानगर में कुल रु. 48.70 लाख के 1 शिबूत कार्य हेतु निविदा में बांदाये अनुसार श्रेणी के संवेद्यको के समकक्ष अर्पित विद्युत श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार / फ़ेडर सरकार के अधिकृत समन्वयी / कन्स्ट्रक्शन् निमाण विभाग/ डाक एवं दूर संचार विभाग/ रेलवे/एम्बेल्स इत्यादि में पंजीकृत संवेद्यको जो कि राजस्थान सरकार के उन्मुख स्थित श्रेणी के संवेद्यक हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्युमेंट निविदाएं आमंत्रित की जाती है निविदा से सम्बन्धित विवरण DIPMR को वेबसाईट www.dipronline.org, <http://eproc.rajjasthan.gov.in> व विभिन्नय वेब साईट <http://rajsawasthya.nic.in> पर देखा जा सकता है।

UBN : NRH2526WWSOB00800

DIPR/C/11068/2025

(श्रीमू राम जाटव)

अधिशाषी अभियन्ता

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक कृषि (शस्य), एटीसी लूनकरनसर

इमेल आईडी- ddagr_aidunkaransar@rediffmail.com

वर्ष 2025-26 में कृषि कार्य व अन्य विविध कार्य हेतु ई-प्रोक्युमेंट के माध्यम से ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।उत्सुक कर्ताविद्युत द्वारा Website eproc.rajjasthan.gov.in से डाउनलोड कर निम्नलिखित प्रपत्र में online शीट प्रस्तुत की जायेगी।

कार्य का नाम	वर्ष 2025-26 कृषि कार्य व अन्य विविध कार्य (खरीद - परीक्षा कार्यक्रम (1.0 हेक्टर) सामान्य बीज उपकरण (3.0 हेक्टर), रक-परीक्षा कार्यक्रम (1.0 हेक्टर) सामान्य बीज उपकरण (3.0 हेक्टर) जैतिक कार्य (4.5 हेक्टर), अन्य विविध सामान्य कार्य प्रपत्र को निम्न-रात खरीदारी, टेंडर राइसर कार्यवत् सचई आदि समस्त कार्य)
अनुमानित तमाल (राशि लाखों में)	1284534/- सचई
अर्पित प्रपत्रा पत्र गृह (सचई में) डे.डी/ हेक्टर रक	500/- सचई
अमानित (सचई में) डे.डी/हेक्टर रक	25691/- सचई
ई-प्रोक्युमेंट कृषि MD R.I.S.L. JAIPUR के नाम डी.डी/ हेक्टर रक	500/- सचई
ई- निविदा आमंत्रण तिथि	28/07/2025
अंतिमस्त ई-निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	18.08.2025 06.00 pm तक
निविदा शुल्क व अमानत राशि (टीडी/ बैंकर्स चेक) एवं अन्य दस्तावेज इस कांवेनर में जमा करने की अंतिम तिथि व समय	19/08.2025 06.00 pm तक
अंतिमस्त ई-निविदा खोलने की तिथि, समय व स्थान कार्य अंतिम	20/08.2025 11.30 a.m
कार्यालय उपनिदेशक कृषि (शस्य) एटीसी लूनकरनसर तिथि वर्ष 2025-26 (कार्यालय अनुसार कार्य प्रारम्भ तिथि से दिनांक 31.03.2026 तक)	
नोट :- इस निविदा से संबंधित अथ विस्तृत विवरण वेबसाइट www.sppp.rajjasthan.gov.in/www.eproc.rajjasthan.gov.in पॉर्टल पर भी देखा जा सकता है।सर्वतः निविदा सौकरार नहीं होगी।	
NIB Code : AGR2526A0291 UBN : AGR2526WWSOB00322 DIPR-C/110152025	
(अब्दुल अमीन)	
उपनिदेशक कृषि (शस्य), एटीसी लूनकरनसर।	

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

INDIRA GANDHI NAHAR PROJECT

OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER ,16TH DIVISION

क्रमांक —1823

निविदा सूचना संख्या 07 वर्ष 2025-26

NIB NO:- IGB2526A0043

राजस्थान के राज्यपाल जी और से निम्नलिखित कार्यों के लिए सहाय श्रेणी के अधिकृत ठेकेदारों से निर्धारित प्रपत्र पर निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं निविदा संकेती अथ विवरण किसी भी कार्य दिवस को अचोहरताहारकर्ता के कार्यालय में देखे जा सकते है। निविदा प्रपत्र अचोहरताहारकर्ता के कार्यालय से निर्धारित शुल्क ई-घ्रास के चालान जमा करवाने पर दिनांक 14.08.2025 को दोपहर 12.00 बजे तक बेची जायेगी तथा दिनांक 14.08.2025 को 14.00 बजे उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष खोली जायेगी। किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार अचोहरताहारकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा प्रपत्र खरीदते समय गत माह 06/25 तक का जी.एस.टी रिटन की प्रति, फर्म के नाम के चेन कार्ड की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। शर्त युक्त निविदाएं मान्य नहीं होगी। निर्धारित शी शिडगुल पर दी गई दरे ही मान्य होगी। धरोहर राशि, शुल्क , निविदा शुल्क ई-घ्रास चालान द्वारा ही स्वीकार्य होगी, जो अधिशाषी अभियन्ता, 16वां खण्ड, इगानप, बीकानेर के नाम से देय होगी।

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (लाख में)	धरोहर राशि 2% (रुपयों में)	धरोहर राशि 1/2 % (रुपयों में)	निविदा शुल्क (रुपयों में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	Major and minor repair of NHP training centre cum IGNP rest house at Jaipur for years 2025-26 UBN NO:- IGB2526WWSOB00146	4.94	9880/-	2470/-	200/-	12 माह
2	Supply of routine items used in NHP training centre cum IGNP rest house for year 2025-26 UBN NO:- IGB2526WWSOB00147	4.94	9880/-	2470/-	200/-	12 माह
3	Providing of Electrician, Plumber, Carpenter for IGNB building for 2025-26 UBN NO:- IGB2526WWSOB00148	4.94	9880/-	2470/-	200/-	12 माह
4	Providing of necessary labour and mankris for cleaning of IGNB campus 2025-26 UBN NO:- IGB2526WWSOB00149	4.95	9900/-	2475/-	200/-	12 माह
5	Emergency Work for NHP training Center cum IGNP Rest House Aluminum and Bus Rising repairing due to short circuit UBN NO:- IGB2526WWSOB00150	1.18	2360/-	590/-	200/-	1 माह
6	Operation and Maintenance of DG set (50 kva and 125 kva) UBN NO:- IGB2526WWSOB00151	4.00	8000/-	2000/-	200/-	3 माह

जिन संवेद्यको के द्वारा बिड धरोहर राशि, निविदा शुल्क, इष्टपडी की राशि जमा नहीं करवाई जावेगी उनको विनाश किमारीय कार्यवाही अमल में ली जावेगी।
उक्त निविदा दिनांक 04.08.2025 को एनपीपी पोर्टल पर ऑन लाइन किया गया है।

DIPR-C/11019/2025

अधिशाषी अभियन्ता, 16वां खण्ड, इगानप, बीकानेर

AKSH OPTIFIBRE LIMITED

CIN: L24305RJ1986PLC016132

R/O: F-1080, Phase III RIICO Industrial Area, Bhiwadi, Rajasthan, India, 301019

Ph: +91-11-49991700, 49991777, Website: www.akshoptifibre.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE & CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

Pursuant to Regulation 33 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Board of Directors of Aksh Optifibre Limited ("the Company") at its meeting held on Friday, August 08, 2025, approved the Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the quarter ended June 30, 2025.

The full Financial Results along with Limited Review Report, are available on the website of the Company at <https://akshoptifibre.com/financial-results.php> and the website of stock exchanges i.e. the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively and can be accessed by scanning the below QR Code:

Date: August 08, 2025

Place: New Delhi

For Aksh Optifibre Limited

Sd/-

Dr. Kailash S. Choudhari

Chairman

DIN: 00023824